

प्रेषक,

कै० आलोक शेखर तिवारी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक)

देहरादून: दिनांक 17 <sup>अप्रैल</sup> मार्च, 2018

विषय: डी०एल०एड० परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण एवं प्रश्न-पत्रों का वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (टी०ई०), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 14 मार्च, 2018 एवं क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून के पत्र दिनांक 15.03.2018 (छायांप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि उत्तराखण्ड राज्य के 415 अध्ययन केन्द्रों पर पंजीकृत 37000 अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों की डी०एल०एड० परीक्षा (विषय कोड 501, 502 एवं 503) की दिनांक 27, 28 व 29 अप्रैल, 2018 को सम्पादित परीक्षाओं के आयोजन के सम्बन्ध में है। उक्त परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों का वितरण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाना है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त डी०एल०एड० परीक्षा के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करते हुए, सम्बन्धित प्रश्न-पत्रों का वितरण अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(कै० आलोक शेखर तिवारी)  
अपर सचिव

संख्या-295 /XXIV(1)/2018-05/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वर्णित डी०एल०एड० परीक्षा के सफल आयोजन हेतु सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(प्रदीप जोशी)  
संयुक्त सचिव